

स्नैप (SNAP) के लिए कार्य आवश्यकताएँ

यदि आप स्नैप (SNAP) के लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो इन लाभों को जारी रखने के लिए आपको कार्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ सकता है। सामान्यतः बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को इन कार्य संबंधी आवश्यकताओं से छूट प्राप्त होती है। शिक्षा, प्रशिक्षण या उपचार कार्यक्रमों में भाग लेना भी कार्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के रूप में माना जा सकता है। एचआरए (HRA) प्रत्येक मामले की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करता है और यदि कार्य संबंधी आवश्यकताएँ आप पर लागू होती हैं, तो आपको इसकी सूचना देगा।

यदि आप आश्रितों के बिना एक सक्षम वयस्क (ABAWD) हैं, तो आपको अतिरिक्त कार्य संबंधी आवश्यकताओं को भी पूरा करना पड़ सकता है।


ABAWD क्या है?

यदि आपकी आयु 18 से 64 वर्ष के बीच है, और आप परिवार में 14 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चे के साथ नहीं रहते; आप गर्भवती नहीं हैं; आप ऐसे किसी व्यक्ति की देखभाल नहीं कर रहे हैं जो अपनी देखभाल स्वयं करने में असमर्थ है; तथा आपको रोजगार करने में कोई शारीरिक या मानसिक अक्षमता नहीं है, तो संभवतः आपको ABAWD (आश्रितों के बिना सक्षम वयस्क) के लिए निर्धारित अतिरिक्त कार्य संबंधी आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

सामान्य स्नैप (SNAP) कार्य संबंधी आवश्यकताएँ क्या हैं?

अपनी रोजगार की स्थिति और काम करने की उपलब्धता के बारे में एचआरए (HRA) को जानकारी दें। यदि आप कार्यरत हैं, तो किसी उचित कारण (जैसे बीमारी) के बिना स्वेच्छा से नौकरी न छोड़ें और न ही प्रति सप्ताह 30 घंटे से कम कार्य करें।

यदि आप कार्यरत नहीं हैं और आपको आपकी योग्यता के अनुरूप कोई उपयुक्त नौकरी का प्रस्ताव मिलता है, तो उचित कारण न होने पर आपको उसे स्वीकार करना होगा। तथा यदि आपको स्नैप (SNAP) रोजगार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नियुक्त किया जाता है, तो उसमें भाग लेना भी आवश्यक होगा।



अधिक जानकारी के लिए QR
कोड स्कैन करें।

ABAWD की कार्य संबंधी आवश्यकताएँ क्या हैं?

यदि आप ABAWD (आश्रितों के बिना सक्षम वयस्क) हैं, तो आपको प्रति माह कम-से-कम 80 घंटे कार्य करना होगा या किसी स्वीकृत कार्य कार्यक्रम, जैसे स्नैप (SNAP) रोजगार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम, में भाग लेना होगा। आप यह आवश्यकता कार्य के घंटों और कार्यक्रम में भागीदारी के घंटों के संयोजन से, तथा स्वीकृत वैकल्पिक गतिविधियों के माध्यम से भी पूरी कर सकते हैं।

आप कार्य अनुभव गतिविधि या सामुदायिक सेवा में भाग लेकर भी ABAWD की कार्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक घंटों की संख्या आपके स्नैप (SNAP) लाभ की राशि को न्यूनतम वेतन से विभाजित करके निर्धारित की जाती है।

यदि आप पहले से ही कार्यरत हैं, या आपको लगता है कि किसी शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य संबंधी स्थिति के कारण आप कार्य करने में सक्षम नहीं हैं, तो कृपया एचआरए (HRA) को इसकी जानकारी दें और संबंधित दस्तावेज़ प्रस्तुत करें। यदि किसी शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य समस्या के कारण आप प्रति माह कम-से-कम 20 घंटे कार्य करने में असमर्थ हैं, तो आप एचआरए की वेबसाइट पर उपलब्ध एक सरल प्रपत्र को अपने चिकित्सक या अन्य मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से भरवा सकते हैं।

यदि आपको कार्य संबंधी आवश्यकताओं के संबंध में किसी मुलाकात के लिए बुलाया जाता है, तो उसमें अवश्य उपस्थित हों। यदि उपस्थित होना संभव न हो, तो अनुपस्थित रहने का वैध कारण एचआरए को अवश्य बताएँ।

यदि आप 3 वर्षों की अवधि में 3 माह से अधिक समय तक ABAWD की कार्य संबंधी आवश्यकताओं का पालन नहीं करते हैं, तो आपके स्नैप (SNAP) लाभ समाप्त या निलंबित किए जा सकते हैं।